Nalwa Sons Investments Limited CIN: L65993DL1970PLC146414

Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi- 110015 Phone No. (011) 45021854, 45021812, Fax No. (011) 25928118, 45021982 Email Id.: investorcare@nalwasons.com, Website: www.nalwasons.com

PUBLIC NOTICE - LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificate(s) are reported to have been lost. The company will proceed to issue duplicate certificate(s) in respect of these shares, if no valid objection is received within 10 days from the date of publication of this notice. EQUITY SHARES OF NALWA SONS INVESTMENTS LTD. (FORMERLY JINDAL

STRIPS LTD.) (Issued after 22.9.2003):						
Name of shareholder	Certificate No(s).	Dist. Nos.	No. of shares			
Kanti Sekhar Dutt Roy Jt. Sati Dutta Roy	615537	61951608-61951614	7			
Shakunthala Shenov	617072	61010182-61010197	16			

OLD EQUITY SHARES OF JINDAL STRIPS LTD. (NOW NALWA SONS INVESTMENTS LTD. (Issued after 11.7.1999 and upto 16.9.2003):

Name of shareholder	Certificate No(s).	Dist. Nos.	No. of shares	
H.S. Lakshmi Jt. H.S. Satish	474529-474530	52472512-52472565	54	
Jacob Alexander Jt. Sucy Jacob	520214-520216	44688779-44688982	204	
Keshav C. Paliwal Jt. Kalpana Paliwal	489297-489299	55351395-55351421	27	
Reena Agrawal	424797	50812963-50813062	100	
Yoginder Pal Anand	528067	50083224-50083255	32	
Thigulla Ravi Kiron	450356-450360	44687684-44687863	180	

OLD EQUITY SHARES OF JINDAL STRIPS LTD. (NOW NALWA SONS INVESTMENTS LTD.) (Issued upto 11.7.1999):

Name of shareholder	Certificate No (s).	Dist. Nos.	No. of shares	
Anita Arya	54272	6976301-6976314	14	
	210547	19020395-19020464	70	
Anil Kumar	309008	31271536-31271580	45	
Joseph Victor Lewis Jt. Slyvia Philomina Lewis	18522	3283901-3284000	100	
Pushpa G. Mehta	5124,	598801-598900,	100	
	21838,	4814101-4814200,	100	
	152188-152189	12286540-12286709	170	
	70478-70479	8188247-8188368	122	
	173043-173044	14456406-14456508	103	
Thigulla Ravi Kiron	54070	6958205-6958304	100	
	208337	18841013-18841104	92	

OLD EQUITY SHARES OF ERSTWHILE JINDAL FERRO ALLOYS LTD. SINCE AMALGAMATED WITH JINDAL STRIPS LTD. NOW NAI WA SONS INVESTMENTS LTD).

(NOW NALWA SONS INVESTMENTS LTD.):						
Name of shareholder	Certificate No(s).	Dist. Nos.	No. of shares			
Kanti Sekhar Dutt Roy Jt. Sati Dutta Roy	485	2498651-2498750	100			

for NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

(Raghav Sharma) Date: May 25, 2017 Company Secretary Place: Hisar

Punj Lloyd Limited

Regd. Office: Punj Lloyd House, 17-18 Nehru Place, CIN: L74899DL1988PLC033314



Extract of audited financial results for the year ended March 31, 2017

Place : Panipat

Date: 27.05.2017

Place: Ludhiana

			Standalone			Consolidated Year ended	
Particulars	Thre	ee months e	nded	Year e	ended		
	Mar 31, 2017	Dec 31, 2016	Mar 31, 2016	Mar 31, 2017	Mar 31, 2016	Mar 31, 2017	Mar 31, 2016
	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(audited)	(audited)	(audited)	(audited)
Total income (net)	102,731	100,992	74,239	405,975	352,771	622,238	470,507
Total income from operations (net)	88,998	99,290	68,813	376,102	334,782	486,728	444,702
Net loss before tax from ordinary activities	(23,016)	(23,181)	(38,182)	(89,916)	(149,529)	(89,958)	(207,793)
Net loss after tax from ordinary activities	(18,158)	(23,181)	(39,615)	(85,058)	(151,371)	(86,471)	(207,780)
Net loss after tax, minority interest and share of loss of associates from ordinary activities *						(92,005)	(213,081)
Total comprehensive income (comprising net loss and other comprehensive income, after tax)	(33,684)	(26,125)	(63,453)	(178,749)	(172,806)	(48,973)	(216,760)
Equity share capital (face value of Rs. 2 each)	6,685	6,642	6,642	6,685	6,642	6,685	6,642
Earnings per share (before and after extraordinary items) (not annualised) -Basic (in Rs.) -Diluted (in Rs.)	(5.46) (5.46)	(6.98) (6.98)	(11.93) (11.93)	(25.60) (25.60)	(45.58) (45.58)	(27.70) (27.70)	(64.16) (64.16)

applicable only in case of consolidated financial results

 The auditors of the Company in their report on standalone and consolidated financial results for the year ended March 31, 2017 have invited. attention in respect of certain cost over-runs amounting to Rs. 73,580 lacs, arising due to design changes and consequent changes in the scope of work on Heera Redevelopment Project with Oil and Natural Gas Corporation Limited and resultant differences and disputes between the parties. After all the discussions in various forums to resolve the matter mutually failed, the Company, with a view to resolve the matter in finality, expeditiously and with legal enforceability, re-commenced the arbitration proceedings. As the Company is confident of a satisfactory settlement of the disputes and recovery of the said amount, no adjustments have been considered necessary in these financial results. The auditors of the Company had expressed an emphasis on this matter in their report on standalone and consolidated financial results for the year

2. During the current year, the Singapore High Court ('the Court') heard upon the applications filed by Punj Lloyd Pte. Limited and Sembawang Engineers and Constructors Pte. Limited, subsidiaries of the Company, in previous year for placing them under the Judicial Management (JM). The Court approved the same and placed both the subsidiaries under the JM w.e.f. June 27, 2016. Pursuant to appointment of Judicial Managers, the Company lost control over these subsidiaries and were accordingly deconsolidated from the said date. Accordingly, the consolidated financial results for the years ended on March 31, 2017 and March 31, 2016 are not comparable to such extent. Further, based on the above development coupled with necessary adjustments effected by the Company, the auditors have removed the Emphasis of Matter given in the standalone financial results for the year ended March 31, 2016.

3. Effective April 01, 2016, the Company has, for the first time, adopted Ind-AS, with a transition date of April 01, 2015. Accordingly, these financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies, to the extent applicable. The impact of transition has been accounted for in opening reserves and the comparative amounts have been restated accordingly. 4. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of these financial results is available on the stock exchange websites: www.bseindia.com/www.nseindia.com and company's website: www.punjlloydgroup.com. 5. There are no extra-ordinary or exceptional items during the above reported periods.

For and on behalf of the Board of Directors of Punj Lloyd Limited Place: Gurugram Chairman and Managing Director Date: May 27, 2017 DIN: 00005612

SMART CAPITAL SERVICES LIMITED

Regd Off.: 325, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 Tel.: 011-65360036, Email ID: smartcap.delhi@gmail.com, Website: www.smartcapitalservices.in, CIN: L74899DL1994PLC059877 Extracts of the Standalone Audited Financial Results For the Quarter and year ended March 31, 2017 (Rs. in lacs)

SI. No.	Particulars	Quarter Ending	Year to date Figures	Correspond- ing 3 months ended in the previous year
		31.03.2017 (Audited)	31.03.2017 (Audited)	31.03.2016 (Audited)
1.	Total income from operations	20.19	79.04	7.99
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	13.13	1.81	2.77
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.13	1.81	2.77
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	12.55	1.23	1.90
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]			
6.	Equity Share Capital	450.12	450.12	450.12
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	(385.12)	(385.12)	(385.12)
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic : 2. Diluted:	0.28 0.28	0.03 0.03	0.04 0.04

- The Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2017 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 26.05.2017. The Standalone Audited Quarterly Financial Results along with Statement of Assets and Liabilities have been subjected to Auditors' Report pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 received by the Statutory Auditors of
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange(s) website i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) and Website of the Company i.e (www.smartcapitalservices.in)
- The information relating to Total Comprehensive Income and other comprehensive income are not furnished as Ind AS is not yet applicable to the company.

For and on behalf of the Board of Directors Smart Capital Services Limited

B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74899DL1989PLC036148

Regd. Office: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi - 110025 Ph: 91-11-40500300; Fax: 91-11-40500333; Website: www.blkashyap.com; Email: info@blkashyap.com

EXTRACT FROM THE STANDALONE & CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

Quarter Ended

(Audited)

23,410.62

828.11

728.11

150.47

2,054.40

0.07

0.07

The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2017 filed with the

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the

financial results for the quarter and year ended 31st March, 2017 are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com,

The figures for the last guarter ended 31st March, 2017 and 31st March, 2016 are the balancing figures between audited figure in respect

of the full financial year and the limited reviewed published year to date figures upto the third guarter ended 31st December, 2016 and

STANDALONE

(Audited)

88,949.55

1,468,77

1,368.77

679.91

2,054.40

41,851.33

0.33

0.33

31.03.2017 | 31.03.2016 | 31.03.2017 | 31.03.2016

(Audited)

24,110.39

305.66

263.16

249.75

2,054.40

0.12

0.12

Year Ended

(Audited)

84,169.39

61.91

19.41

95.60

0.05

0.05

2,054.40

41,171.41

Pawan Kumar Mittal Place: New Delhi (Director) Date: 26.05.2017 DIN: 00749265

Particulars

(before tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)

Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary items)

Net Profit/(Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extra Ordinary items)

Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Balance Sheet of previous year

(for continuing and discontinued operations)

31st December, 2015 respectively.

www.bseindia.com) and Company's website (www.blkashyap.com).

Total Income from operations

Net Profit/(Loss) for the period

Paid Up Equity Share Capital

(Face Value of the Share ₹ 1/-)

Earning Per Share of ₹ 1/- each

Basic:

Note:

Diluted:

MEDICAMEN BIOTECH LTD.

Regd. Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi - 110019 (CIN: L74899DL1993PLC056594) Website: www.medicamen.com Email id: cs@medicamen.com

Extracts of Standalone Audited Financial Results for the Financial Year and Quarter Ended 31.03.2017 (Rs. in lacs)

AND THE CONTROL OF TH	Quarter	Ended	Year Ended		
Particulars	31.03.2017 (Audited)	31.03.2016 (Audited)	31.03.2017 (Audited	31.03.2016 (Audited)	
Total Income from operations	2228.35	1798.35	8245.57	6727.59	
Net profit/ (Loss) from ordinary activities before tax)	157.67	216.25	635.87	71.19	
Net profit/ (Loss) for the period after tax (after		72			
Extraordinary items)	115.06	181.72	516.01	48.09	
Equity Share Capital	1051.86	999.36	1051.86	999.36	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as Shown					
in the Balance Sheet of previous year)	1549.03	791.52	1549.03	791.52	
Earning Per Shares (before extraordinary items)	3	(a)	-		
of /-each)					
Basic :	1.10	1.83	4.95	0.48	
Diluted:	1.10	1.83	4.95	0.48	
Earning Per Shares (after extraordinary items)			0,340%		
of /-each)					
Basic :	1.10	1.83	4.95	0.48	
Diluted:	1.10	1.83	4.95	0.48	

- NOTES: The above results after being reviewed by the Audit Committee were taken on record by the Board at its Meeting held on 27th May, 2017.
- The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary. The company operates in single segment, viz. Pharmaceutical Formulations.
- The full format of the Quarter & Yearly Results are available on the website of the Company & BSE
- For & on behalf of Board of Directors Medicamen Biotech Limited

Rahul Bishnoi Place: Delhi Director Dated: 27.05.2017 DIN: 00317960

(Amount in Lakhs)

31.03.2016

(Audited)

86,030.38

(1,110.26)

(1,152.76)

(600.20)

2,054.40

37850.60

(0.29)

(0.29)

CONSOLIDATED

Year Ended

31.03.2017

(Audited)

90,761.13

(856.67)

(956.67)

(1,324.67)

2,054.40

36,626.07

(0.64)

(0.64)

"IMPORTANT"

Sd/

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

Date - 26.05.2017

RIBA TEXTILES LIMITED

CIN: L18101DL1989PLC034528

Regd. Office: DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post office, New Delhi-110019. E.Mail: company.affairs@ribatextiles.com, Website: www.ribatextiles.com, Tel. no.: 011-26236986 STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31/03/2017

Amount in La				
Particulars	Quarter ending as on 31/03/2017	Year to date figures for the current year ended 31/03/2017	Corresponding 3 months ended in the previous year 31/03/2016	
Total income from operations (net)	3575.34	11362.81	3188.9	
Net Profit/ (Loss) from ordinary activities after tax	191.04	429.29	-13.94	
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	191.04	429.29	-13.94	
Equity Share Capital	965.29	965.29	965.29	
*Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the previous year)		3340.57		
Earnings Per Share (before extraoridnary items) (of Rs. 10/- each)				
Basic :	1.98	4.45	-0.14	
Diluted:	1.98	4.45	-0.14	
Earnings Per Share (after extraoridnary items) (of Rs. 10/- each)	0.000	1000000	8-30-2	
Basic:	1.98	4.45	-0.14	
Diluted :	1.98	4.45	-0.14	
Note:	100		3	

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ yearly Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly/ Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on the Company's Website www.ribatextiles.com. Reserves excluding revaluation reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year were Rs. 2911.29 Lacs.

By order of the Board For RIBA TEXTILES LIMITED

(Ravinder Garg)

(Rs. in Lacs)

Chairman and Whole-Time Director

DIN:00202164 Kishore House, Assandh Road, Panipat, 132103 Haryana

IOL CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LTD. Regd. Office: Trident Complex, Raikot Road, Barnala-148 101 (Punjab)

CIN: L24116PB1986PLC007030 Website: www.iolcp.com

PARTICULARS	Quarter ended 31.03.2017 (Un-audited)	Quarter ended 31.03.2016 (Un-audited)	Year ended 31.03.2017 (Audited)	Year ended 31.03.2016 (Audited)
Total Income from Operations (Gross)	207.58	158.08	773.19	644.21
Net Profit /(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1.81	1.59	5.48	(38.55)
Net Profit /(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1.81	1.59	5.48	(38.55)
Net Profit /(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1.50	1.12	4.23	(40.03)
Total Comperhensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other compehensive income (after tax)]				
Equity share capital	56.21	56.21	56.21	56.21
Reserves (excluding Revaluation Reserves) as at balance sheet date	507555450.00	1556,00000.00	133.15	128.92
Earning per share (of Rs.10/- each) (for countinuing and discountinued operations)			27.500	0.100400.46
Basic	0.26	0.20	0.75	(7.60)
Diluted	0.26	0.20	0.75	(7.60)
Cash	1.56	1.60	6.10	(1.68)

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2017

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/ annual financial results is available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com and Company's website www.iolcp.com

By order of the Board For IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

Joint Managing Director

DIN: 06510248

1126.44

8.88

Vijay Kumar Garg

1740.33

12.19

Date: 27-05-2017 Shareholders are requested to register their E-mail ID at Investor@iolcp.com /Depository

participants / www.iolcp.com for quick correspondence

NATIONAL FITTINGS LIMITED

(formerly Interfit Techno Products Limited)

S.F.No.112, Madhapur Road, Kaniyur, Karumathampatti Via, Sulur Taluk, **Coimbatore - 641659**

Email: accounts@nationalfitting.com, Website: www.nationalfitting.com

Ph: 9943293000 / 9943993001 CIN: L29199TZ1993PLC008034

Summary of Audited Financial Results for the Year ended 31st March 2017

(Rs. In Lakhs) Year ended Audited **PARTICULARS** 31.03.2017 31.03.2016 Total income from operations (net) 6706.54 5218.59 738.79 Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax * 1014.45 832.00 832.00 Equity Share Capital paid up Rs.10/- each

* The Company does not have any extraordinary item to report for the above periods.

The Board of Directors has recommended a final dividend of Rs.2/-per guity share of Rs.10/- each subject to the approval of members at the ensuing Annual General Meeting. **NOTES:**

1. The above result has been reviewed by Audit Committed and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 27th May 2017 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges

under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The fullformat of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com

For National Fittings Limited

A.V.PALANISWAMY Managing Director

Corporation Bank

Meerut Branch Address: 208, Olympic Chamber, Begum Bridge, Meerut (U.P.)

DIN:01817391 E-AUCTION SALE

NOTICE

Authorised Officer

Sale Notice (Sale through E-auction Only)

Place: Coimbatore

Date: 27.05.2017

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic and Diluted

Notice of Sale of immovable properties by online public auction under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. Offers are invited by on line mode through https://corpbank.auctiontiger.net to be submitted latest by 3.30 PM of 28.06.2017 for sale of below mentioned properties, which are in the symbolic possession of the bank on "As is and where is basis" towards recovery of banks debts plus cost and expenses from the below mentioned borrowers and guarantors.

Name of Branch, Address, Phone No. & Email ID	Name of the Borrower and Guarantor	Description & Owner of the Properties	Demand Notice Date and Outstanding Amount	Submission	Reserve Price EMD and Bid Increase Amount	Date / Time of Mega E-Auction
Corporation Bank, 208, Olympic Chamber, Begum bridge, Meeurt (U.P.) Email cb0505@corpb ank.co.in Mobile No. 9410607106 Phone No. 0121-2642682	Singh, S/o Sh. Subhash Chand, R/o 79/III/DS North Estate	Bounded as under: As per valuation dated 14.10.2016 East: House No.18/1.	21.08.2012 Rs. 6,10,287.80 Plus interest & other expenses as on 30.09.2016 Date of	A/C No. 0505001010 12644 A/c Name Authorised Officer A/c Type Savings Branch Meerut Branch IFSC Code CORP00005 05	Reserve Price Rs. 25,22,970.00 EMD Rs. 2,52,297.00 Bid Increase Amount Rs. 25,000.00	29.06.2017 11:00 AM to 02:00 PM (with 10 min. unlimited auto extensions)

Terms & Conditions :- A. The e-auction is being held on "AS IS WHERE IS and AS IS WHAT IS BASIS". B. The successful bidder shall at the end of the auction pay 25% of the amount of sale price in addition to the amount already deposited by way of EMD immediately on the sale being knocked down in his favour and the balance within 15 days from the date of sale confirmation or within such period as agreed upon in writing by and solely in the discretion of the Authorised Officer. Payment is to be made by RTGS/NEFT to the account of Authorised officer. On default the property shall be resold and the defaulting purchaser shall not have any claim whatsoever and the amount already paid shall be forfeited. C. Any statutory and other dues payable either accrued or arisen already shall be borne by the purchaser of the property. D. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on the property. However, the intending bidder should make their own independent inquiries regarding the encumbrance, title of the property/ies and to inspect & satisfy themselves. Property can be inspected from 10:30 am to 5:00 pm after consultation with the Authorized Officer. E. The intended bidders who have deposited the EMD and require assistance in creating login ID and password, uploading data, submitting bid etc, may contact -- Mr Ram Sharma, Mob. No: 8000023297, e-mail: ramprasad@auctiontiger.net, and Mr. Vishal Tiwari, Mob. No.: 9879996111, e-mail

vishal@auctiontiger.net Landline No: 079-40230821|823|824|806|827|833|813 to 820, support@auctiontiger.net FOR DETAIL TERMS & CONDITIONS PLEASE REFER TO https://corpbank.auctiontiger.net

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT-2002

The borrower/ guarantor are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with up to date interest and ancillary expenses before the date of e-auction failing which the property will be auctioned/ sold and balance dues if any will be recovered with

interest and cost

Place - Meerut

Place: New Delhi

Dated: 27th May, 2017

Vineet Kashyap **Managing Director** DIN: 00038897

For B.L. KASHYAP AND SONS LIMITED

WE BUILD YOUR WORLD



उफ राजा आर छाटू शामिल हैं। 🗷 वार्ता

पर मेहरबान

ड पत्रकारों ने मीडिया में पांच वर्ष पूरे उन मीडियाकर्मियों के लिए एक नई भी की। वर्तमान में दो श्रेणियां हैं एक गौर एक नॉन-एक्रीडिएटिड। इसके के प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर को सुविधा मुहैया कराने के मद्देनजर

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी कार्यालय के साथ दो कमरों की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मीडियाकर्मी, जिनकी आयु वक है और किसी भी समाचार पत्र में का कार्य अनुभव है वें योजना के लेने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा ग्रेस सरकार ने मीडियाकर्मियों के लिए ए मासिक पेंशन देने की घोषणा की थी ाछली संरकार ने 20 वर्ष के लगातार । में सेवा प्रदान करने के पश्चात पेंशन ही शर्त को लगाया था।

विज्ञपात ही मौत

गये, जिनकी बाद में घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबिक सात लोग झुलस कर घायल हो गये। घटना सूचना मिलने पर प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ और राजस्व पुलिस की बचाव एवं राहत टीम मौके पर भेजी गई, लेकिन टीम के संसाधनों की कमी के चलते समय पर न पहुंचने और घायलों को अस्पताल न पहुंचा पाने से गंभीर रूप से झुलसे तीन लोगों ने रात्रि में दम तोड़ दिया। 🗷 एसएनबी

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण संगठन)

शुद्धिपत्र सं. 1

निविदा सूचना सं. : सीओएन/2017/ मई/07 दिनांकित 18-05-2017 (दो पैकेट प्रणाली)

CIN: L18101DL1989PLC034528

Regd. Office: DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post office , New Delhi-110019. E.Mail: company.affairs@ribatextiles.com, Website: www.ribatextiles.com, Tel. no.: 811-26236986

AND ALONE FINANCIAL RESIDES FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31/03/2017

STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUA		Year to date figures for the current year ended 31/03/2017	3 months ended in the previous year 31/03/2016
	3575.34	11362.81	3188.9
otal income from operations (net)	191.04	429.29	-13.94
	191.04	429.29	13.94
let Profit/ (Loss) from ordinary activities after Extraordinary items) let Profit/ (Loss) for the period after fax (after Extraordinary items)	965.29	965.29	965.29
Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the		3340.57	
previous year) Earnings Per Share (before extraoridnary items) (of Rs. 10/- each) Basic :	1.98	4 45	
Diluted: Earnings Per Share (after extraoridnary items) (of Rs. 10/- each) Basic:	1.98		

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ yearly Financial Results filled with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterty/ Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on the Company's Website www.ribatextiles.com. By order of the Board

Reserves excluding revaluation reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year were Rs. 2911.29 Lacs.

FOR RIBA TEXTILES LIMITED

(Ravinder Garg) Chairman and Whole-Time Director DIN:00202164

Place : Panipat Date: 27.05.2017 Kishore House, Assandh Road, Panipat, 132103 Haryana

कार्यालय नगर पालिका परिषद हापुड़, जनपद-हापुड़

पत्रांक :- 267(IV)/23/अनु0वि0/2017-18

"अति अल्पकालीन निविदा सूचना"

सर्वसाधारण को सूचित किया जांता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नगर पालिका परिषद हापुंड सीमान्तर्गत होने वाली पार्किंग शुल्क वसूली एवं , यूनीपोल, क्योस्क आदि से होने वाले विज्ञापन सम्बन्धी कार्य की निविदा दरें आमन्त्रित करती है। निविदा प्रपत्र पालिका कार्यालय एवं अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0) कार्यालय हापुड से दिनांक 03.06.2017 अपरान्ह 2:00 बजे तक निविदा के सम्मुख दर्ज शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकते है। निविदा से सम्बन्धित समस्त दिशा निर्देश एवं शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगें। उक्त निविदा अधोहस्ताक्षरी एवं अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) कार्यालय में रखे टैण्डर बॉक्स में दिनांक 05.06.2017 को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक डाली जा सकेगीं। जो अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) महोदय के समक्ष नियत तिथि को खोली जायेगीं।

शासनादेश सं0-ए-1-1173 / दस- 2001-10(55) / 2000 वित्त लेखा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल 2001 के अनुसार कार्य की तकनीकी बिंड एवं वित्तीय बिंड अलग—अलग लिफाफ्रे में रखकर दोनो बिड़ों को एक बड़े लिफाफ़ें में रखकर निविदा डालनी होगी। तकनीकी बिड़ सही होने पर ही वित्तीय बिंड का लिफाफा खोला जायेगा। तकनीकी बिंड व वित्तीय बिंड के प्रारूप निविदा प्रपत्र के साथ कार्यालय से उपलब्ध होगें। तकनीकी बिंड के साथ निविदा के सम्मुख धरों. हर राशि की एफ0डी0आर/एन0एस0सी0 जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हापुड़ के

तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी